



# ÉCOLE GLOBALE

## INTERNATIONAL GIRLS' SCHOOL

### Dehradun

## HOLIDAY HOMEWORK - CLASS IX B Hindi

सामान्य निर्देश--

- 1- सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो।
- 2- कार्य स्वच्छ एवं स्पष्ट हो और सुंदर लिखावट में हो।

### व्याकरण वर्ण विच्छेद

### निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग कीजिए -

तन्दूर, पाखण्ड, पन्थ, कम्बल, सन्धि

- अनुनासिक का प्रयोग करो -
- परेशानियाँ, चिड़िया, आख, कुंवर,
- नुक्ते का प्रयोग करो -
- फलक, जमीर, हुजूर, गालिब
- शुद्ध रूप लिखो-
- परिच्छा, व्यवहारिक, नछत्र

### निम्नलिखित उपसर्गों से दो-दो शब्द बनाइए-

- अन, अभि, ला, अधि, कु, परि, सु, सह, अ, ति
- निम्नलिखित प्रत्यय शब्दों से दो-दो शब्द बनाइए -
- नी, इमा, साज, इत

### विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करो -

- कृष्ण अर्जुन युद्ध करो
- मैं स्कूल से आ रहा हूँ पढ़ने गया था
- अरे वह आ गया

पाठ-धूल,दुःख का अधिकार,एवरेस्ट,तुम कब जाओगे अतिथि,वैज्ञानिक चेतना के वाहकः,कीचड़ का काव्य ,मेरा छोटा सा पुस्तकालय ,गिल्लू ,अग्निपथ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर स्पर्श और संचयन पुस्तक के आधार पर दीजिए ---

प्र०-- धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती ?

- लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया ?
- पास पड़ोस से पूछने पर लेखक को क्या पता चला ?
- लेखक ने बुढ़िया के दुःख का अंदाजा कैसे लगाया ।
- चढाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी ?
- नजदीक के एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा ?
- एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया ?
- लेखक ने अतिथि को देवता न मानकर राक्षस के समान क्यों माना है ?
- अतिथि के सत्कार में लेखक का उत्साह क्यों क्षीण हो गया ?
- रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है ?
- सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ?
- कीचड़ का रंग किन किन लोगों को खुश करता है ?
- लेखक कीचड़ को सुंदर कहने के पीछे क्या तर्क देता है ?
- सर्वत्र सनातन कीचड़ कहाँ देखने को मिलता है ?
- अस्वस्थ लेखिका का ध्यान रखने से गिल्लू की किस भावना का पता चलता है ? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए ।
- लेखिका तथा गिल्लू के आपसी सम्बन्धों से हमें क्या सन्देश मिलता है ?
- गिल्लू किन अर्थों में परिचायक की भूमिका निभा रहा था ?
- मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ के आधार पर लेखक विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देना चाहता है ?
- अग्निपथ कविता में वर्णित वृक्ष किस प्रकार के हैं ?
- अग्निपथ कविता के कवि कौन हैं

निम्नलिखित विषयों पर 100 से 150 शब्दों के अनुच्छेद लिखिए---

- मनोरंजन के आधुनिक साधन , युवा वर्ग के कर्तव्य, आधुनिक भारत की समस्याएँ
- प्र०-- योग स्वस्थ जीवन का आधार उक्ति के सन्दर्भ में दो विद्यार्थियों के संवाद को 50 शब्दों में लिखिए ।
- प्र०—कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को बधाई देते हुए एक शिक्षक के संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए ।

### विज्ञापन

- साक्षरता अभियान से सम्बन्धित विज्ञापन को 50 शब्दों में तैयार कीजिए ।
- भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देने वाला विज्ञापन तैयार कीजिए ।
- चित्रकला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु विज्ञापन लेखन कीजिए ।
- आपका जर्मन ,फ्रेंच,और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अच्छा है गर्मियों की छुट्टियों में धनार्जन करने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए ।

## पत्र

- परीक्षा की तैयारी के महत्व को बताते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए।
- अपने मित्र को वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए।
- आपके चाचाजी ने नया घर लिया है। उन्हें बधाई देते हुए पत्र लिखिए।
- छात्रावास में रहने वाली छोटी बहन को फैशन की ओर अधिक रुझान न रख, ध्यानपूर्वक पढाई करने की सीख देते हुए पत्र लिखिए।